

गीता और कुरान का अंतर



जिस आदमी ने श्रीमदभगवद गीता का पहला उर्दू अनुवाद किया वो था मोहम्मद मेहरुल्लाह ! बाद में उसने सनातन धर्म अपना लिया !

पहला व्यक्ति जिसने श्रीमदभागवद गीता का अरबी अनुवाद किया वो एक फिलिस्तीनी था अल फतेह कमांडो नाम का !

जिसने बाद में जर्मनी में इस्कॉन में शामिल हुआ और अब हिन्दू है !

पहला व्यक्ति जिसने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया उसका नाम चार्ल्स विलिक्नोस था ! सने भी बाद में हिन्दू धर्म अपना लिया उसका तो यह तक कहना था कि आने वाले सम में दुनिया मे केवल हिंदुत्व ही बचेगा !

गीता का हिब्रू में अनुवाद करने वाला व्यक्ति बेजासिशन ले फनाह (Bezashition le fanah) नाम का इज़रायली था जिसने बाद में भारत मे आकरहिंदुत्व अपना लिया था !

पहला व्यक्ति जिसने गीता का रूसी भाषा मे अनुवाद किया उसका नाम था नोविकोव जो बाद में भगवान कृष्ण का भक्त बन गया !

आज तक 283 बुद्धिमानों ने श्रीमद भगवद गीता का अनुवाद किया है अलग अलग भाषाओं में जिनमें से 58 बंगाली, 44 अंग्रेजी, 12 जर्मन, 4 रूसी, 4 फ्रेंच, 13 स्पेनिश, 5 अरबी, 3 उर्दू और अन्य कई भाषाएं थी !

जिस व्यक्ति ने कुरान को बंगाली में अनुवाद किया उसका नाम गिरीश चंद्र सेन था ! लेकिन वो इस्लाम मे नहीं गया शायद इसलिए कि वो इस अनुवाद करने से पहले उन्होंने श्रीमद भागवद गीता पढ़ ली थी । ये है सनातन धर्म और इसके धार्मिक ग्रंथों की ताकत ।